



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 1975/पोष 27, 1896

No. 10] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 1975/PAUSA 27, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 17th January 1975

G.S.R. 10(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 4-B of the Vegetable Oil Products Control Order 1947, and in supersession of the order of the Government of India in the late Ministry of Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 466(E) dated the 24th November 1972, the Vegetable Oil Products Controller for India hereby prescribes the limits of usage of the vegetable oils specified in column (1) of the Table below, in the manufacture of vegetable oil product (other than product manufactured for non-edible, industrial use), during any six-month period commencing from January and July of each year, by any producer in the regions specified in column (2), to be those shown against each in column (3) thereof.

THE TABLE

Name of vegetable oil	Region	Limit of usage (per cent by weight of vegetable oil product)
(1)	(2)	(3)
1. Cottonseed oil	All regions	Minimum, 30
2. Groundnut oil	All regions	Maximum, 25

[No. 9-VP(1)/74]

S. V. SAMPATH.

Vegetable Oil Products Controller of India.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी 1975

सा० का० नि० 10(अ).—वनस्पति तेल उत्पाद आदेश, 1947 के खण्ड 4-ख के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के आदेश सं० सा० का० नि० 466 (ई) तारीख 24 नवम्बर, 1972 को अधिकांश करते हुए भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रदेशों में किसी भी उत्पादक द्वारा, जनवरी और जुलाई से प्रारम्भ होने वाली किसी भी छः मास की अवधि के दौरान, वनस्पति तेल उत्पाद (अखाद्य, औद्योगिक प्रयोग के लिए विनिर्मित उत्पाद से भिन्न) के विनिर्माण में, स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वनस्पति तेल के उपयोग की सीमाएं विहित करता है जो प्रत्येक के सामने स्तम्भ (3) में दर्शित हैं।

सारणी

वनस्पति का तेल	प्रदेश	प्रयोग की सीमा (वनस्पति तेल उत्पाद के भार द्वारा प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)
1. बिनोलों का तेल	सभी प्रदेश	कम से कम, 30
2. मूंगफली का तेल	सभी प्रदेश	अधिक से अधिक, 25

[सं० 9-बी०पी०(1)/74]

एस० बी० सम्पन्न,

भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक।